## **MPS Infotecnics Limited**

CIN: L30007DL1989PLC131190 An ISO 9001 - 2008 Company



To,

Date: 1st August, 2020

The Manager-Listing
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra Kurla Complex (E),
Mumbai-400051

**The Manager-Listing**BSE Limited
Floor 25, P J Towers,
Dalal Street,Mumbai-400001

NSE Symbol-VISESHINFO

Scrip Code-532411

<u>Sub: Newspaper publication of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2020 under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir,

With reference to the captioned subject, we would like to inform you that in accordance with Reg.47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published its Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2020 in newspapers namely, 'Business Standard' (English and Hindi) dated 1st August, 2020.

The same will be available on the website of the Company:  $\underline{www.mpsinfotecnics.com}$ .

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking You

Yours faithfully For MPS Infotecnics Limited

Garima Singh Company secretary

Corporate Office : 8-55, Sector - 65, Nolda (U.P.)-201301 Ph: +91-0120-4713900, Fax: +91-0120-4324040

Regd. Office: 703, Arunachat Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-1 Ph.: 011-43571044, Fax: 011-43571047

E-mail: info@viseshinfo.com

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.mpsinfotec.com. For MPS Infotecnics Limited

0.01

Peeyush Kumar Aggarwal Place: New Delhi



8 Earning Per Share (Diluted)

## ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (नि.प.सं.एल 29222 डीएल 1976 पीएलसी 008129) पंजीकृत कार्यालय : कोर-2, पहली मंजिल, "स्कोप मीनार", प्लॉट नं.2ए व 2बी, लक्ष्मी नगर ज़िला केन्द्र, दिल्ली-110 091.

-0.006

-0.004

न्धान कार्यालय : "निकर्षण सदन", एच.बी.कोलनी मेन रोड, सीतम्मधारा, विशाखपट्टणम-530 022. ई-मेल : sreekanth@dcil.co.in, दूरभाष : 0891-2523250, फैक्स : 0891-2560581, वेबसाइट : www.dredge-india.com

🐠 पत्तनों की जीवन रेखा



सेवाएँ :

- ♦ निर्माणगत निकर्षण
- ♦ निर्वाहगत निकर्णण ♦ तट पोषण
- ♦ भिम उद्धार ♦ परियोजना प्रबंधन परामर्श ♦ उथले जलीय निकर्षण ♦ समुद्री निर्माण

f	देनांक ३१ मार्च, २०२० को समाप्त बर्ष संबंधी	रुवतः परी	क्षित वित्तीर	र परिणामों	
					(रुपये लाखो मे)
क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31-03-2020 को समाप्त तिमाही	दिनांक 31-03-2019 को समाप्त तिमाही	दिनांक 31-03-2020 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31-03-2019 को समाप्त वर्ष
1.	प्रचालनों से कुल आय	22822.20	23838.58	75529.27	69851.58
2.	इस अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पहले)	269.60	11157.79	1341.55	4337.39
3.	इस अवधि के लिए कर-पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	269.60	11157.79	1341.55	4337.39
4.	इस अवधि के लिए कर-पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	-438.21	11109.98	551.31	3802.72
5.	इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इस अवधि के लिए (कर-पश्चात्) लाभ/हानि और अन्य व्यापक आय (कर-पश्चात्) से युक्त)	-438.21	11109.98	551.31	3802.72
6.	ईक्किटी शेयर पूँजी	2800	2800	2800	2800
7.	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकित आरक्षितियों को छोडकर)			154224.39	154685.73
8.	निवल मूल्य			157024.39	157485.72
9.	प्रदत्त ऋण पूँजी/बकाया ऋण			55210.00	65202.07
10.	ऋण साम्या अनुपात			0.351:1	0.41:1
11.	प्रति शेयर आमदनी (ई.पी.एस.)(रुपयों में)				
	(क) मूल	2.95	39.68	1.97	13.58
	(ख) फीका	2.95	39.68	1.97	13.58
12.	डिबेंचर प्रतिदान आरक्षिति			3000.00	3000.00
13.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात			0.98	1.12
14.	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात			2.01	3.54

- उपर्यक्त विवरणी भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सुचीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 33 और विनियम 52 के अंतर्गत शेयर बाजारों के सम्मुख फाइल किए गए वार्षिक परिणामों के विस्तृत प्रपत्र का सार है । इसका पूरा प्रपत्र शेयर बाजारों के वेब-साइटों - www.nseindia.com, www.bseindia.com www.cseindia.com और इस कम्पनी के वेबसाइट www.dredge-india.com में उपलब्ध है ।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (अनिवार्यताओं और अन्य प्रकटनकी अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) के खंड वाक्य (ए)(बी)(डी) और (ई) में संवर्भित मदों के लिए संगत प्रकटन मुम्बई शेयर बाजार में किए गए है और इनको <u>www.bseindia.com</u> पर और इस कम्पनी के वेबसाइट <u>www.dredge-india.com</u> पर दर्शाया गया है। मंण्डल के आदेश से

स्थान : विशाखपटनम दिनांक : 30-07-2020

टिप्पणी :

कृते ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड ह०/- (राजेश त्रिपाठी) प्रबंध निदेशक



### जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः सेक्टर-128, नोएडा-201304 (च.प्र.) CIN: L45203UP2007PLC033119 दूरभाष नं.: 91 (120) 4609000, 2470800 फैक्स: 91 (120) 4963122 ईमेलः jpinfratech.investor@jalindia.co.in वेबसाइटः www.jaypeeinfratech.com

#### 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रु. लाख	में ईपीएस छोड़कर)
एकल प	रिणाम
ग्रमात वर्ष	समाज वर्ष

		एकल परिणाम			
頭.	विवरण	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष		
सं.	1991-1	31.03.2020	31.03.2019		
		लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित		
1	परिचालन से आय कुल आय	158,759	129,279		
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट तथा/या असाधारण मदों से पूर्व)	(205,286)	(130,383)		
3	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट तथा/या असाधारण मदों के उपरांत)	(205,286)	(130,383)		
4	करोपरांत अवधि के लिए निवल लाम/(हानि) (विशिष्ट तथा/या असाधारण मदों के उपरांत)	(214,276)	(132,569)		
5	अवधि हेतु कुल परिपूर्ण आय [अवधि (करोपरांत) के लिए लाभ/(हानि) तथा अन्य	(214,280)	(132,573)		
	परिपूर्ण आय (करोपरांत) सम्मिलित है]				
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)	138,893	138,893		
7	आरक्षित निधि (पूनर्मृत्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष	(236,017)	(21,738)		
	के लेखा परीक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है	200 100 100	202100-2022		
8	निवल सम्पत्ति	(97,124)	117,155		
9	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	21,195	21,195		
10	ऋण इक्विटी अनुपात	0 से कम	10.44		
11	प्रति शेयर उपार्जन (रु. 10/- प्रत्येक) (चालू एवं बंद परिचालनों के लिए)				
	(वार्षिकीकृत लेखा नहीं)ः				
	- बेसिक (रु. में)	(15,43)	(9,54)		
	- डाइलूटेड (रु. में)	(15.43)	(9.54)		
12.	पूंजी मोचन आरक्षित	-	-		
13	ऋण पत्र मोचन आरक्षित	3353	3353		
14	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	0 से कम	0 से कम		
15	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	0 से कम	0.18		

तारीख : 30 जुलाई, 2020

1. ऊपर उल्लिखित विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 52 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के पास दायर 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित एकल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त स्वरूप है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ऊपरोक्त परिणामों का सम्पूर्ण स्वरूप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की येबसाइटॉ (www.nseindia.com), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा कंपनी की येबसाइट (www.jaypeeinfratech.com) पर उपलब्ध है।

सेबी (सूचीकरण तथा अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 52 (4) के उप-अनुच्छेद (ए), (बी), (डी) तथा (ई) में उल्लेखित मदों के लिए प्रासंगिक प्रकटीकरण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (www.nseindia.com) तथा बीएसई तिमिटेड (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.jaypeeinfratech.com) पर उपलब्ध कराया गया है।

> जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की अंतरिम निगरानी कमिटी के लिए उनकी ओर से अंजू जैन

(सदस्य सचिव, आईएमसी) (IBBI/IPA-001/IP-P00142/2017-18/10306)

प्रमोद कुमार अग्रवाल (मुख्य वित्तीय अधिकारी)

योगेश शर्मा (सदस्य आईएमसी)

-0.023

Chairman

-0.009

विज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 1 अगस्त 2020 शनिवार

## पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Resolution Recovery & Law, कलस्टर ऑफिसः 8/1, अब्दुल अजीज रोड़, डब्लू ई ए, करोल बाग, नई दिल्ली-110005,

फोन: 40045717, 40045742

कब्जा सूचना

नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पँठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर मुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदृद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांकों को ले

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	खाते का नाम (कर्जदार/ गारंटर/बंधककर्ता)	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि (रू. में)	माँग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख
	1. श्री भरत कुमार (उघारकर्ता) निवासी : मकान नं. 2998, मूतल, गली नं. 15, शिव चौक रंजीत नगर, नई दिल्ली—110008, और : मकान नं. 628, सदर बाजार, करनाल, हरियाणा—132001 2. श्रीमती नेहा (सह—उघारकर्ता), निवासी : मकान नं. 2988, मूतल, गली नं.15, शिव चौक रंजीत नगर, नई दिल्ली—110008, और : मकान नं. 628, सदर बाजार, करनाल, हरियाणा—132001	के, क्षेत्रफल 128—1/3 वर्ग गज, फ्री होल्ड सम्पत्ति नं. XVII/2998, में से, इसके साथ ही भूमि के नीचे अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वाधित अधिकारों के साथ	दिनांक 10.07.2020 से भविष्य का स्याज और	01-01-2020 27-07-2020

दिनांक : 27-07-2020, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

#### Avonmore Capital & Management Services Limited

CIN: L67190DL1991PLC045857

Regd. Off.: F-33/3, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020
Tel.: 011-43500700, Fax.: 011-43500787

Website: www.avonmorecapital.in, E-mail ID: secretarial@almondz.com **Extract of Consolidated Audited Financial Results** for the Quarter & Year ended 31st March, 2020

(Rs.in lakhs, except per share data)

		quarter ende	Year ended		
Particulars	31 <sup>±</sup> March 2020 Audited	31st December 2019 Unaudited	31** March 2019 Audited	31** March 2020 Audited	31st March 2019 Audited
Total Income from Operations	1,720	1,793	1,773	7,220	8,150
Net profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	(333)	235	71	580	673
Net profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	(333)	235	71	580	673
Net profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items, minority interest and share of profit/(loss) in Associate Companies)	198	331	246	1,553	977
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	321	325	264	1,660	973
Equity Share Capital	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)	-			13,281	10,908
Earning Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10 /- each)					
(a) Basic	1.32	1.34	1.09	6.84	4.01
(b) Diluted	1.32	1.34	1.09	6.84	4.01
Earning Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10 /- each)					
(a) Basic	1.32	1.34	1.09	6.84	4.01
(b) Diluted	1.32	1.34	1.09	6.84	4.01

Key	number	OT	Standalone	Financiai	Kesuit

	0	Quarter ende	Year ended		
	31# March 2020 Audited	31 <sup>≭</sup> December 2019 Unaudited	31st March 2019 Audited	31* March 2020 Audited	31* March 2019 Audited
Net Income from Operations	11	93	107	261	393
Profit from ordinary activities before tax	(70)	53	69	81	249
Profit from ordinary activities after tax	(44)	33	153	65	269
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(42)	32	153	66	268

- The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2019 with a transition date of April 1, 2018. The Financial Results have been prepared in accordance with Ind AS as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2015.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ender 31<sup>st</sup> March, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31<sup>st</sup> March, 2020 and the notes thereto are available at the website of the Company i.e www.avonmorecapital.in and stock exchange website i.e www.bseindia.com.
- The Consoliated Audited Financial Results (PAT) for the year ended 31st March, 2020 include figures pertaining to three associates: M/s Premier Alcobey Private Limited, M/s Almondz Insolvency Resolutions Services Private Limited & Willis Towers Watson India Insurance Brokers Private Limited.

For and on behalf of the Board of Avonmore Capital & Management Services Ltd

Place: New Delhi Date: 30th July, 2020

V

**Vipul** 

Ashok Kumar Gupta Managing Director DIN:- 02590928

विपुल लिभिटेड पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 201, सी.-50, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

कॉर्पोरेट कार्यालयः विपूल टेकस्क्वायर, गोल्फ कोर्स रोड, सैक्टर-43, गुरुग्राम-122009 CIN No.: L65923DL2002PLC167607, फोन न.: 0124—4065500, वेबसाईट: www.vipulgroup.in 2020 को समाप्त चर्तुथ तिमाही / वार्षिक के स्टैण्डअलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणाामों का सार

	(रू. लाख में प्रति अंश आय को छोड़कर)								
क्र.		स	माप्त तिम	समाप्त वार्षिक					
सं.	विवरण	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019			
```		अंकेक्षित	अंनकेक्षित	अंके क्षित	अंके क्षित	अंके क्षित			
1	परिचालनों से कुल आय	2,461.67	4,336.28	6,167.16	18,543.47	22,056.51			
2.	शुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु तथा (कर अपवाद स्वरूप तथा/अथवा असाधारण सामग्री से पूर्व)	(2,656.48)	(18.32)	29.02	(3,107.59)	152.25			
3.	शुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु तथा (कर अपवाद स्वरूप तथा/अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात्)	(2,656.48)	(18.32)	29.02	(3,107.59)	152.25			
4.	शुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु तथा कर पश्चात् (अपवाद स्वरूप तथा/अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात्)	(2,024.84)	29.31	47.77	(2743.01)	143.04			
5.	इक्विटी शेयर पूंजी	1199.84	1199.84	1199.84	1199.84	1199.84			
6.	अवधि हेतु कुल योग गहन आय (अवधि हेतु लाम/हानि शामिल करके तथा/अथवा असाघारण सामग्री पश्चात् तथा अन्य गहन तथा पूर्ण आय (कर पश्चात्)	(2,057.77)	29.31	20.61	(2,775.93)	115.88			
7.	प्रति अंश आय (रू. 1/— प्रत्येक)(लगातार, सतत तथा रियायती संचालन हेतु)								
	–मूलभूत	(1.69)	0.02	0.04	(2.29)	0.12			
	—द्रव	(1.69)	0.02	0.04	(2.29)	0.12			
	31 मार्च 2020 को समाप्त चर्नथ निमादी / वार्षिक	के समेकित	ा अंके शिव वि	عام الكار	யாய் கூர	ਜ			

$\perp$	–द्रव	(1.69)	0.02	0.04	(2.29)	0.12			
	31 मार्च, 2020 को समाप्त चर्तुथ तिमाही/ वार्षिक	के समेकित	ा अंकेक्षित ि	वेत्तीय परिण	गामों का सा	र			
	(रू. लाख में प्रति अंश आय को छोड़कर								
क्र		स	माप्त तिम	ाही	समाप्त	समाप्त वार्षिक			
सं	l laaam	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019			
71	1	अंकेक्षित	अंनकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंके क्षित			
1	परिचालनों से कुल आय	2,642.14	4,461.52	6,452.08	20,106.56	23,301.75			
2	शुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु तथा (कर अपवाद स्वरूप तथा/अथवा असाधारण सामग्री से पूर्व)	(2,720.02)	(384.56)	(25.27)	(3,798.89)	(171.19)			
3	शुद्ध लाम / (हानि) अवधि हेतु तथा (कर अपवाद स्वरूप तथा / अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात्)	(2,702.02)	(384.56)	(25.27)	(3,798.89)	(171.19)			
4	शुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु तथा कर पश्चात् (अपवाद स्वरूप तथा/अथवा असाघारण सामग्री से पश्चात्)	(2,197.90)	(328.85)	166.21	(3,434.66)	121.48			
5	इक्विटी शेयर पूंजी	1199.84	1199.84	1199.84	1199.84	1199.84			
6	अवधि हेतु कुल योग गहन आय (अवधि हेतु लाम/हानि शामिल करके तथा/अथवा असाधारण सामग्री पश्चात् तथा अन्य गहन तथा पूर्ण आय (कर पश्चात्)	(2,231.23)	(328.85)	139.29	(3,467.99)	94.56			
7	प्रति अंश आय (रू. 1/— प्रत्येक)(लगातार, सतत तथा रियायती संचालन हेतु)								
	–मूलभूत	(1.83)	(0.27)	(0.14)	(2.86)	0.10			
L	— <b>द</b> व	(1.83)	(0.27)	(0.14)	(2.86)	0.10			
- 23									

नोट— उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (''सूचीकरण विनियमन'') के विनियम 33 के तहत बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए 31 मार्च, 2020 को समाप्त चतुर्थ तिमाही और वार्षिक के विस्तृत (स्टैंडअलोन और समेकित) अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त चतुर्थ तिमाही और वार्षिक के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट <u>www.bseindia.com, www.nseindia.com</u> और कम्पनी की वेबसाइट <u>www.vipulgroup.in.</u>पर भी उपल्ब्ध है।

ग. लि. और इसकी सहायक कम्पनी के 31 मार्च, 2020 के वित्तीय आंकड़ों को शामिल करके ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई है एवं इनकी अनुशंसा पर निदेशक मण्डली की बैठक में दिनांक 31 जुलाई, 2020 को अनुमोदित किया गया है। उपर्युक्त परिणाम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 तथा सम्बन्धित नियमों के अनुरूप और भारत में सामान्यत अन्य नियमों के तहत इन्ह

एएस के अनुसार तैयार किए गए हैं। कम्पनी ने 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी इन्ड एएस 116 को पट्टों पर लागू किया है जोकि कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) कम्पनी (भारतीय

नेखा मानक) संशोधित नियम 2019 द्वारा नोटिफाई किए गए हैं। इस मानक को अपनाने पर परिणामों पर कोई भी वस्तुत: प्रभाव नहीं पड़ा है। बोर्ड की ओर से और उन्ही के लिए विपुल लिमिटेड हस्ता /-पुनीत बेरीवाला

## HINDUSTAN AGRIGENETICS LIMITED CIN- L01119DL1990PLC040979

Regd. Office: 806 Megdoot, 94, Nehru Place New Delhi-110019 (Correspondence address: C-63 South Extension Part-II, New Delhi-110049) Email: hindustanagrigenetics@gmail.com. Tel +91 9810273609

#### NOTICE

- Notice is hereby given to the following promoters of the company as under 1. The Company is in the process of revocation of suspension of trading in the securities of the company with the BSE Limited.
- That the Company, through speed-post dated 20.07.2020 and 21.07.2020 requested all the existing Promoters, named below, to submit to the Company their PAN and updated contact details including Phone number and Email in

TAPAIVIL	IVAIVIL	INVIOL						
ARUNHATI	S LALITA	BANIBRATA PANDEY						
RANJIT RAI KHULLAR	SANJAY SAHA	MURALI KRISHNA						
IRAVATI	SUMATI	PUSHPA KAPUR						
MANJU	MADDALI SUREKA	SUDIPTA PANDEY						
RADHIKA SRIKANTAM	SURENDRANATH GADI	SUMANT KAPUR						
ARVIND KHANDERAO	UMASUNDARI							
DESHMUKH	ANNADATA							
3 Previously the Company through its PTA has also requested all the								

Previously, the Company, through its RTA, has also requested all the promoters to share their contact details but none of the promoter reverte on those letters.

4. We now again requesting all the promoters of the Company, kindly submit their PAN and updated contact details to the Company.

By the order of Board For Hindustan Agrigenetics Limited Place: New Delhi Neha Mittal Company Secretary and Compliance Officer Date: 01.08.2020

🕂 HDFC BANK

विशेष प्रचालन विभाग नासिक टॉवर, प्लॉट सं. 1, जे-ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, सामने सूर्या कॉन्टीनेंटल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) (प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

नबिक अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण ए पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तिय n उपयोग में एचडीएफसी बैंक लि. का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार मैसर्स कार्गो प्लानर्स लिमिटे (कर्जदार) इसके निदेशकों, जमानतियों तथा बंधककर्ताओं श्री शिखर चन्द्र जैन, श्रीमती बीना जैन, सुश्री शचि जै तथा सुश्री शिवि जैन से सूचना में उल्लिखित राशि रु. 32,38,01,407.86/- (रुपये बत्तीस करोड़ अड़तीस लाख ए हजार चार सौ सात एवं छियासी पैसे मात्र), कुल राशि में से एचडीएफसी बैंक की राशि रु. 22,47,18,672/- तथ 11.04.2019 से भावी ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक स्वीकृत शर्तों के अनुसार आकरिमक व्यय, लागत का कथि सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए 30.04.2019 को एक माँग सूचन . नेर्गत की थी। पंजाब नैशनल बैंक (पूर्व का ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स) की राशि रु. 9,90,82,735.86 तथ 01.05.2019 से भावी ब्याज एवं भुगतान की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचन जारी की थी। जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वा जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों नेयम 8 के साथ पठित कथित नियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पा पर 29 जुलाई, 2020 को दिल्ली में कब्जा कर लिया है। एतद्वारा विशेष रूप से जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) व तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्प के साथ कोई संव्यवहार बकाया रु. 32,38,01,407.86/- (रुपये बत्तीस करोड़ अड़तीस लाख एक हजार चार र सात एवं छियासी पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज एवं भुगतान की ताँथि तक स्वीकृत शर्तों के अनुसार व्ययों, औ लागतों के लिए एचडीएफसी बैंक लि. तथा पंजाब नैशनल बैंक (पूर्व का ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स) वे अभियोग का विषय होगा। प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्या अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

निम्नलिखित पर स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग

सम्पत्ति का विवरण नेम्नलिखित अचल सम्पत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार :

खसरा नं. 160(4-17) तथा 249/2(0-08), विस्तारित लाल डोरा आबादी, ग्राम भरतल, तहसीत वसन्त विहार नर्र दिल्ली पर स्थित ४ बीघा 17 बिस्वा कल माप की फीहोल्ड सम्पत्ति का सम्पर्ण भार माप 700 वर्ग गज (3 विक्रय विलेख), स्वामित्व शिवि जैन, साची जैन तथा बीना जैन। ii खसरा नं 160(4-17) तथा 249/2(0-08), विस्तारित लाल डोरा आबादी, ग्राम भरतल, तहसी

वसन्त विहार, नई दिल्ली पर स्थित 4 बीघा 17 बिस्वा कल माप की फ्रीहोल्ड सम्पत्ति का सम्पर्ण भार माप 626 वर्ग गज (3 विक्रय विलेख), स्वामित्व शचि जैन, शिखर चन्द जैन तथा बीना जैन।

स्थान : नई दिल्ली



अन्य प्रकाशनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा, यानी साढ़े पांच पन्ने -मंगलवार से शनिवार - जो दे शेयर, म्यूच्युअल फंड और जिंस के भाव के साथ कल के भाव और हाज़िर भाव भी

-अपनी प्रति के लिए

Call 022 4027 5432 or SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in

बिजनेस स्टैंडर्ड

f businessstandardhindi bshindi

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

hindi.business-standard.com

दिनांकः जुलाई 31, 2020 डीआईएनः 07835981 स्थानः गुरूग्राम

# **Gehlot shifts MLAs to** outwit Pilot camp



(Top) Rajasthan Congress MLAs arrive at Jaipur Airport as they shift to Jaisalmer: (Right) Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot at Jaipur Airport

**ADITI PHADNIS** New Delhi, 31 July

ajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has moved MLAs pledging allegiance to him to a luxury resort in Jaisalmer from Jaipur, where they have been staying since July 13.

They were transported by a chartered aircraft, with no clarity as to who is footing the bill - for both the aircraft and Survagarh Resort. They will be kept in Jaisalmer till the eve of the Assembly session starting August 14.

"After the Assembly session was announced on Wednesday, the rates for horse-trading have increased. Earlier, the first installment amounted to ₹10 crore, and the second ₹15 crore. But now they are being asked 'What do you want'. This means from 25 (crore rupees), horse trading rates have increased," Gehlot had told

the press on Thursday, justifying the

So far, 54 MLAs have moved and the rest will also be shifted. Ministers, however, will stay in Jaipur. Before departing for Jaisalmer, Gehlot had convened a Legislature Party meeting in Jaipur and told MLAs they would be given lucrative offers and that they should ignore as this government will stay put.

"We are going to Jaisalmer just for change," said MLA Prashant Bairwa. Former MLA Badriram Jakhar spoke to the media at Jaisalmer, and issued a call to all MLAs in the Sachin Pilot camp to return home. "It is still not too late. Pilot can still return," said Jakhar. The immediate provocation behind shifting the MLAs was the apprehension that at least 10 in the Gehlot camp were still in touch with Pilot.

they were selected by Sachin Pilot as can- Gehlot camp stays united.

didates for the 2018 Assembly election and defeated the BJP in their constituencies by big margins. Danish Abrar, for instance, defeated a tribal BJP candidate Asha Meena by 25,000 votes, which is sizeable in an Assembly election.

Abrar is the son of former union minister Abrar Ahmad, and is an MBA from a British university. Chetan Dudi won by a margin of 40,000 while Prashant Bairwa won by a margin of 43,000 votes.

All of them had earlier denied they were joining the Pilot camp. However. in the Gehlot faction, suspicion remains about their lovalties. Gehlot had spoken to them when the Rajasthan crisis first started, and told them that Pilot was joining the BJP and their political future would be sealed if they joined Pilot.

The move to Jaisalmer is calculated to All of them have one thing in common: prevent attrition and make sure the



## LG rejects Delhi govt's key Unlock 3 decisions

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 31 July

Delhi Lt Governor Anil Baijal on Friday rejected the AAP government's decision to allow hotels and weekly markets under Unlock 3, official sources said.

As the Covid-19 situation continues to be "fragile" and the threat is still "far from over", the lieutenant governor has taken this decision, they said. On Thursday, the Arvind Kejriwal government decided to allow hotels to reopen in the city. It also allowed weekly bazaars (markets) on a trial basis for seven days with social distancing and all necessary Covid 19-appropriate measures in place.

# Congress fault lines out in the open

New Delhi, 31 July

The blame game in the Congress intensified on Friday as party leader Manish Tewari made a sensational charge that internal sabotage from within the United Progressive Alliance (UPA) was responsible for the defeat of the Congress in the 2014 that brought the National Democratic Alliance to power.

The MP from the Anandpur Sahib constituency said the 2019 defeat must also be analysed, especially as no charge of a court of law six years on. He referred to the 2G spectrum scam and hinted at a larger conspiracy to destabilise the UPA. "What would be interesting to find out someday is not trillion by faulty allocation of attack the government.



Manish Tewari said sabotage from within the UPA was responsible for the defeat of the Congress in the 2014

corruption has been proved in that the report was fake but who set him to it." he tweeted. referring to Comptroller and Auditor General Vinod Rai. whose audit report suggesting the government had lost ₹1.76

2G spectrum was a major reason for the BJP to spin out a narrative of corruption against the Congress that caused the BJP's landslide victory in 2014.

Tewari's comments come against the background of a meeting of Rajya Sabha MPs from the Congress called by interim Congress President Sonia Gandhi on Wednesday. At this meeting, former finance minister P Chidambaram and former telecom minister Kapil Sibal said the leadership was muddled and fuzzy and needed to be more focused to regain political ground. What followed was a fierce debate between the old guard and acolytes of Rahul Gandhi, who charged that the seniors were simply not doing enough to

# FROM PAGE 1

## SBI pre-tax profit..

"I have made my views very clear that after August 31, moratorium is not required," said Kumar. Asset quality improved in Q1. Gross non-performing assets (GNPAs) declined to 5.44 per cent from 7.53 per cent in Q1FY20 and 6.15 per cent in Q4FY20. Net NPAs declined to 1.86 per cent from 3.07 per cent last June. Net NPAs stood at 2.23 per cent in March 2020.

"If there is prolonged recession and recovery takes time, corporate slippages may rise. But the book is very different compared to what happened in FY18," said Kumar. "The SME segment has alleviated some NPAs and a lot of help is coming from the government. SMEs and the lower end of mid-corporates is where the number is very large, as of June 30."

Recoveries were muted because of the economic downturn but the bank expects a swift rise. "It was around ₹440 crore, but throughout the year we expect it to rise significantly. We are looking at recovering ₹10,000-11,000 crore from corporates in the next two quarters, besides normal recoveries," said Kumar.

The banks' deposit base grew 15.96 per cent YoY, of which current account deposit grew 12.98 per cent and savings bank deposits grew 17.29 per cent. Credit growth, meanwhile, stood at 6.58 per cent — driven mainly by retail (personal) advances and foreign office advances.

## Low-denomination...

At an industry event last week, Chairman Ajay Tyagi had said the manner of increase in retail participation was worrying.

Analysts said many of these were millennials who turned to trade due to lack of returns from other assets, and due to the lockdown-induced stress. "Trading was the only uninterrupted economic activity. Fortunately, most of these new investors made money. However, the beginner's luck made them overconfident and they are now putting in more funds, which is adding to liquidity," said Ambareesh Baliga, a market analyst

He added that gullible investors were being duped by shady operators. Such operators pose as analysts and veteran traders on chat groups, which have mush-

roomed in the last few months. New investors, according to market

players, rely on actionable tips doled out on open chat groups on Telegram, without much analysis of the company's fundamentals. "Operators who we thought were dead and buried in the last few years have resurfaced. They pass information in these groups, and stocks they say will rise does

lowing," said Baliga. Analysts said this trend of low-denomination stocks running up would not sustain as fundamentals did not back them. "Such bubbles burst in a big way. Ultimately, liquidity in the system is limited. We do not have the depth to allow everyone to encash," said Chokkalingam.

go up. As a result, they have a huge fol-

Analysts said the quarterly results would give a realistic picture of whether this exuberance in the markets would sustain or not. "We still have several firms that have not announced their results and have taken an extension till August 31. Most of these are delaying the bad news. It makes sense to delay when investors are lapping up their stocks," said Baliga.

## **Working with RBI...**

A high-level panel has firmed up investment plans for infrastructure projects worth ₹111 trillion in five years.

A DFI is an entity owned generally by the government to fund projects that are unable to get loans from commercial lenders. There is dearth of such institutions in India. Most of them are sectorspecific such as Rural Electrification Corp and the National Bank for Agriculture and Rural Development (Nabard).

The finance minister emphasised reciprocity in trading arrangements with countries to which India has opened up.

Sitharaman said banks could not refuse credit to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) covered under emergency credit facilities. Banks have sanctioned ₹1.3 trillion to MSMEs under this scheme as of July 23. Of that, ₹82,065 crore has been disbursed.

### JSW, GMR...

### JSW Energy posts PBT of ₹298 cr

The firm announced its financial performance for the June quarter on Friday. It reported a profit before tax (PBT) of ₹298.28 crore, 8 per cent down from ₹325.58 crore

reported in the same quarter a year ago. Net profit stood at ₹213 crore, 13 per cent down from ₹244 crore reported a year ago.

The firm noted that India's power demand declined by 16.2 per cent year-onyear (YoY) in the June quarter due to weak economic activity amid lockdowns and restrictions. In line with this, JSW Energy's overall generation also dipped 16 per cent to 4,930 million units in the quarter.

"Around 95 per cent of the firm's earning before interest, taxation, depreciation and ammortisation (Ebitda) is dependent on capacities which are tied up with power purchase agreements (PPAs)," Jain said, A higher exposure to PPAs has softened the hit on financials for JSW Energy. Ebitda for the quarter decreased 4 per cent to ₹827 crore from ₹861 crore in the corresponding quarter of the previous year.

### Time to make 2G...

The industry captains were speaking at the Indian Mobile Congress webinar coinciding with the silver jubilee of mobile telephony in India. Mobility has become affordable beyond all expectations and therefore it's become democratic, ceasing to be a rich man's monopoly, according to the RIL chairman. "Cellphones have become multifunctional because of the internet and data has become both abundant and affordable," he said adding that the completion of 25 years of mobile telephony is also an occasion to look at the obstacles that have prevented Indian consumers and Indian society from fully benefitting from the digital revolution.

Jio had recently announced its plan to manufacture low-cost smartphones in the country so that a feature phone user could easily switch to a smartphone. Mittal said: "What Indian telecom industry has achieved in the last 25 years is simply phenomenal - a Nation of a billion plus connected citizens and the second largest mobile market globally. For Airtel and me as a first generation entrepreneur, it's a matter of pride to have been at the forefront of this exhilarating journey."

On July 31, 1995, the first mobile call was made between Writer's Building in Kolkata and Sanchar Bhavan in Delhi. At one end was then chief minister of West Bengal Jyoti Basu and on the other side was erstwhile communications minister Sukh Ram.



Regd. Off.: 12th Floor, Krushal Commercial Comple G. M. Road, Chembur (West), Mumbai - 400 089 Tel: + 91 22 42463999, Fax: +91 22 25251589 Email: office@maninfra.com, website: www.maninfra.com CIN: L70200MH2002PLC136849

#### NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 8" August, 2020, inter alia to consider, approve and take on record un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2020.

This intimation is also available on the Company's website at www.mainfra.com, and may also be accessed on the website of the Stock Exchanges, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

Place: Mumbai

Date: 31.07.2020

**Durgesh Dingankar** 

**Company Secretary** 

AkzoNobel

Akzo Nobel India Limited CIN: L24292WB1954PLC021516

Tel. (033) 22267462, Fax (033) 22277925 Email: investor.india@akzonobel.com, Website: www.akzonobel.co.in

#### **BOARD OF DIRECTORS' MEETING**

This is to notify that a Meeting of the Board of Directors' of Akzo Nobel India Limited is scheduled to be held on Monday, 10 August, 2020 to consider, inter alia, the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June 2020.

Investors may visit the website of the Company www.akzonobel.co.in and the Stock Exchanges viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com for further details in this regard.

for Akzo Nobel India Limited

Harshi Rastogi Company Secretary Membership # A13642

Registered Office: Geetanjali Apartment, 8B, Middleton Street, Kolkata - 700071 Dated: 31 July, 2020

Gulf Oil Lubricants India Limited

Registered Office: IN Centre, 49/50, MIDC 12th Road, Andheri (East) Mumbai - 400 093

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of the Company

will be held on Wednesday, August 12, 2020

to consider and approve inter-alia, the unaudited financial results of the Compar for the first quarter and three months ende

The said Notice is available on the Company's website www.gulfoilindia.com and also or

the website of Stock Exchanges viz. BSE Limited

www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com

For Gulf Oil Lubricants India Limited

Vinayak Joshi

Company Secretary & Compliance Officer

Date : July 31, 2020

Place : Mumbai

CIN: L23203MH2008PLC267060 Email: secretarial@gulfoil.co.in

#### **BOROSIL RENEWABLES LIMITED**

(Formerly Known as Borosil Glass Works Limited)
Registered Office: 1101, Crescenzo, G-Block, Opp. MCA Club,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbal – 400051, Maharashtra, India
CIN: L26100MH1962PLC012538 Tel: 022-67406300 Fax: 022-67406514

## NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other relevant Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of Borosil Renewables Limited (Formerly Borosil Glass Works Limited) will be held on Monday, the 10th August, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020.

This intimation is also available on the website of the Company www.borosilrenewables.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

For Borosil Renewables Limited (Formerly Borosil Glass Works Limited)

Company Secretary & Compliance Office

#### TELANGANA STATE POWER GENERATION CORPORATION LIMITED VIDYUT SOUDHA:: HYDERABAD - 500 082.

## T.No.e-05/CEG/SEG-1/E4A1/KTPP O&M/CHP-HFO Tank Stage-I

KTPP – Design, Engineering, Supply, Erection, Testing & Commissioning New 2000 KL storage capacity HFO Tank in place of damaged existing HFO tank of size 7.5 Mtrs height, 10 Mtrs radius required for Kakatiya Thermal Power Project, Stage-I, Jayashankar Bhoopalapally Dist as per the design & fabrication code: IS-803 duly dismantling the existing HFO tank.. Value of the works: Rs.1,21,06,000/-. Scheduled Open & Closing Date: 28.07.2020 at 15:00 Hrs & 31.08.2020 at 14:30 Hrs.

#### T.No.e-10/CE/Civil/Thermal/TSGENCO/2020-

KTPP Stage-II - Providing Stainless Steel hand railing around the unloadin bay and repair bay openings in operating floor at 17.0 Mts level of STG building at Kakatiya Thermal Power Project, Chelpur (Vil), Jayashankai Bhoopalapally Dist. Value of the works: Rs.26,05,475/-. Scheduled Open & Closing Date: 23.07.2020 at 17:00 Hrs & 06.08.2020 at 16:30 Hrs.

## T.No.e-01/CE(C&C)/SE(C&C)/DE(C)/A3/TSGENCO/2020-21

KTPP - Purchase, Collection & Removal of Coal Mill rejects available and being generated at KTPP, Jayashankar Bhoopalapally Dist during FY-2020 21 for a contract period of Twelve (12) months from the date of issue of sale order on "As is where is basis" through e-auction. Inspection of Site: 29.07.2020 at 10:30 Hrs to 20.08.2020 at 17:00 Hrs, Date of Auction 31.08.2020 from 12:00 Hrs to 15:00 Hrs.

" www.tsgenco.co.in, https://tender.telangana.gov.in & https://auction.telangana.gov.in

#### MPS INFOTECNICS LIMITED

703, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi -110 001 CIN: L30007DL1989PLC131190 , Website: http://www.mpsinfotec.co

Place : Mumbai Date : 31.07.2020

Extract of Audited Financial Results (Consolidated) for the Quarter and Year Ended March 31,2020

S.	Particulars -		Quarter Ende	Financial Year Ended			
No.		31-03-2020	31-12-2019	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019	
1	Total income from operations (net)	10.23	347.24	11.53	814.19	1700.39	
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax	-158.89	-113.26	-121.73	-561.66	-534.76	
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	366.89	-211.61	-148.78	-330.93	-883.14	
4	Total Cmprehensive Income for the Period						
	(Net of Taxes)						
5	Equity Share Capital (Face Value Rs.1/- per share)	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37	
6	Reserves excluding Revaluation reserves		-				
	(i.e. Other equity)						
7	Earning Per Share (Basic)	0.01	-0.006	-0.004	-0.009	-0.023	
8	Earning Per Share (Diluted)	0.01	-0.006	-0.004	-0.009	-0.023	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.mpsinfotec.com For MPS Infotecnics Limited

Place: New Delhi

#### **Extracts of Statement of Consolidated Financial Results** for the guarter ended 30 June, 2020

	(₹ in crore)								
Par	ticulars	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended				
		30 June, 2020	31 March, 2020	30 June, 2019	31 March, 2020				
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)				
1.	Revenue from continuing operations	2,348.16	2,378.09	2,584.03	10,356.75				
2.	Profit from continuing operations before share of (loss)/								
	profit of joint ventures and tax	110.65	216.33	344.99	1,251.91				
3.	Profit from continuing operations before tax	109.94	216.88	342.30	1,248.06				
4.	Profit from continuing operations after tax	74.15	197.56	230.73	1,028.41				
5.	Profit/(loss) from discontinued operations before share								
	of profit of joint ventures and tax	-	6,136.08	(8.00)	6,128.08				
6.	Profit/(loss) from discontinued operations after tax		6,236.72	(4.40)	6,199.74				
7.	Profit for the period (4 + 6)	74.15	6,434.28	226.33	7,228.15				
8.	Total comprehensive income for the period	98.28	5,967.95	446.19	6,821.85				
9.	Paid-up equity share capital (Face value: ₹ 10 per share)	254.82	254.82	254.82	254.82				
10.	Other equity and Non-controlling interests				13,406.61				
11.	Earnings per share								
	- Basic and Diluted (for continuing operations)	0.52*	7.25*	6.19*	31.66				
	- Basic and Diluted (for discontinued operations)	-	244.81*	(0.17)*	243.36				
	- Basic and Diluted (for continuing and discontinued								
	operations)	0.52*	252.06*	6.02*	275.02				
* N	ot annualised								

#### **Extracts of Statement of Standalone Audited Financial Results** for the quarter ended 30 June, 2020

Peeyush Kumar Aggarwal

Part	iculars	Quarter ended 30 June, 2020	Quarter ended 31 March, 2020	Quarter ended 30 June, 2019	Year ended 31 March, 2020
1.	Revenue from continuing operations	627.98	734.05	718.53	2,920.29
2.	Profit from continuing operations before tax	142.30	142.38	291.79	834.32
3.	Profit from continuing operations after tax	108.77	117.85	205.56	671.82
4.	Profit/(loss) from discontinued operations before tax	-	6,136.08	(8.00)	6,128.08
5.	Profit/(loss) from discontinued operations after tax	-	6,236.72	(35.51)	6,168.40
6.	Profit for the period (4 + 6)	108.77	6,354.57	170.05	6,840.22
7.	Total comprehensive income for the period	152.60	5,811.98	402.09	6,297.78
8.	Paid-up equity share capital (Face value: ₹ 10 per share)	254.82	254.82	254.82	254.82
9.	Other equity				11,722.50
10.	Earnings per share				
	- Basic and Diluted (for continuing operations)	4.27*	4.63*	8.07*	26.37
	- Basic and Diluted (for discontinued operations)	-	244.81*	(1.39)*	242.13
	- Basic and Diluted (for continuing and discontinued				
	operations)	4.27*	249.44*	6.68*	268.50
* Not annualised					

Place: Mumbai

Date: 31 July, 2020

- The above is an extract of the detailed format of the Consolidated and Standalone financial results for the guarter ended 30 June, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Consolidated and Standalone financial results for the quarter ended 30 June, 2020 is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.tatachemicals.com)
- 2. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on

For and on behalf of the Board of TATA CHEMICALS LIMITED

**Managing Director & CEO** 

R. Mukundan

TATA CHEMICALS LIMITED

Regd. Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai - 400 001. Tel: +91 22 66658282 Website: www.tatachemicals.com CIN:- L24239MH1939PLC002893 Email: investors@tatachemicals.com